

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2023—आश्विन 11, शक 1945

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्र. एफ-7-37-2001-अड़सठ.—भोपाल स्टेट सलकनपुर टेम्पल एक्ट, 1956 (13 सन् 1956) की धारा 5 की उपधारा (1) के (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से सीहोर जिले के सलकनपुर मंदिर समिति में श्री जगदीश नाभिक, आ. श्री गोरेलाल नाभिक, पंच, वार्ड क्रमांक-11, सलकनपुर, तहसील बुदनी, जिला सीहोर को सलकनपुर मंदिर समिति का सदस्य के रूप में मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.